

# JAN DHAN SANCHAY CO-OPERATIVE (U) THRIFT & CREDIT SOCIETY LTD.

(Registered under Delhi Co-operative Society Act, 2003 vide Regn. No. 10508 Dated 13-11-2017)

E-mail : jandhancoop10508@gmail.com



Website : www.jandhansanchay.com

**HEAD OFF.: 2/62A, LALITA PARK, LAXMI NAGAR, DELHI-110092**  
**PH.: 011-22010271, 9318344013, 9958656409**

## MEMBERSHIP APPLICATION FORM

Branch : .....

Dated .....

To  
The Secretary / President,  
Dear Sir,

Membership No.

I apply for admission as a Member of your Society.

I understand the Rules & Bye-laws of the Society and hereby agree to abide by them and any subsequent modifications thereto. I also hereby declare that I am neither a member of any other Co-operative Thrift & Credit Society operating or working in the State of Delhi nor taken any kind of Loan which is outstanding as on date.

I request that the Managing Committee may please allot me **50 Shares of Rs. 10/-** each and I also agree to deposit Rs. 300/- per month on account of Compulsory Deposit as well as Admission Fee of Rs. 50/- and other sums towards Building Fund, Kalyan Fund, Misc. Rec., etc., as applicable on the date of my Admission as Member.

I hereby nominate the following person to whom all money due to me by the Society or payable by me to the Society, in the event of my death, may be paid or recovered, as the case may be.

1. Name Mr./Mrs./Miss :

2. Father's/Hus. Name :

3. Mother's Name :

4. Date of Birth :  Age  Own House Property : Yes  No

5. Sex : Male  Female  Marital Status : Single  Married

6. PAN No. :  Aadhar No.

7. Monthly Income : ₹  /- (Occupation : Service/Business/Others)

8. Present / Correspondence Address :

9. Permanent Address :

10. Phone/Mobile/Contact No., If any : (M)  (R)  (O)

11. E-MAIL :

12. Name & Address of the Employer :

or Business

13. Name of the Nominee ..... Relationship with Member ..... Age of Nominee ..... Years

14. Signature of Introducer .....

15. Introducer Full Name : ..... (Signature of Applicant)

16. Membership No. .... Mobile No. .... E-MAIL .....

(FOR OFFICE USE ONLY)

Admitted Shri/Smt./Miss.....  
as a Member of the Society vide Resolution No. .... (4) PRESIDENT/SECRETARY/MANAGER

case Book Dt. & M.C. Meeting Date ..... and allotted Membership No. ....

Note Required Documents : Photo Copy Electric Bill / Water Bill / PAN Card /Aadhar Card (Compulsory) / 2 Passport Size Photo

Amount Payable for New Membership as under :- Share Money Rs. 500/-, C/D Rs. 300/- (Refundable)

Admission Fee Rs. 50/-, K/Fund Rs. 350/-, Bldg. Fund Rs. 350/-, Misc. Rs. 100/- = Total Rs. 1,650/- (Rs. 850/- Not Refundable)

Membership Closing Charges Rs. 200/-, SMS Charges @ Rs. 5/- Per Month.



# जन धन संचय को-ऑपरेटिव (अर्बन) थ्रिफ्ट एण्ड क्रेडिट सोसाइटी लि०

पंजीकरण संख्या (10508) दिल्ली प्रशासन, दिल्ली

मुख्य कार्यालय : 2/62ए, ललिता पार्क, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092

Tel.: 011-22010271, 9318344013, 9958656409

शाखा कार्यालय : सी-544, न्यू अशोक नगर, दिल्ली-110096 फोन : 9318344013, 9971183623, 6387278665, 011-22010271

शाखा कार्यालय : करावल नगर मुख्य मार्ग, दिल्ली-110094 फोन : 9873587849, 9318344013, 9648967098, 6387278665, 011-22010271

शाखा कार्यालय : सोनिया विहार, तीसरा पुस्ता, दिल्ली-110094 फोन : 9873587849, 9318344013, 8074738865, 6387278665, 011-22010271

शाखा कार्यालय : मयूर विहार फेस-3, नियर सी.एन.जी. पम्प, दिल्ली-96 फोन : 9873587849, 9318344013, 9958656409, 6387278665, 011-22010271

शाखा कार्यालय : 271, गली नं० 4, नियर गोविन्दपुरी मेट्रो स्टेशन, गोविन्दपुरी, दिल्ली-110019 फोन : 6387278665, 9318344013, 011-22010271

शाखा कार्यालय : T-43, प्रथम तल, जीवन ज्योति हॉस्पिटल, मेन रोड, तेहखण्ड, ओखला फेस-1, नई दिल्ली-110020

फोन : 9899165622, 9318344013, 011-22010271

## आवश्यक सूचना

### सदस्यता हेतु आवश्यक कागजात :-

- ❏ पैन कार्ड (अनिवार्य है)
- ❏ आधार कार्ड (अनिवार्य है)
- ❏ सदस्यता फार्म पर साक्षी के हस्ताक्षर (साक्षीकर्ता कम से कम 6 महीना पुराना सदस्य हो) और यदि सदस्य बनाने वाले किरायेदार है तो नवीन किराया अनुबन्ध एवं मकान मालिक का नवीनतम बिजली का बिल और अपना स्थायी पता देना अनिवार्य है।
- ❏ बिजली/पानी का बिल (अनिवार्य है)
- ❏ दो पासपोर्ट साईज रंगीन फोटो।

### निर्देश :-

- ❏ अगूठा लगाने वाले सदस्य को ऋण सुविधा नहीं है।
- ❏ गृहिणी (हाऊस वाईफ) अधिकतम ऋण 50,000/-रूपये है और उनके पति की अंडरटेकिंग तथा आय प्रमाण अनिवार्य है।
- ❏ एक ही परिवार के कई सदस्य बनने पर गारन्टी/साक्षी अन्य परिवार की देनी पड़ेगी।
- ❏ (6) माह पुरानी सदस्यता होने पर निम्नतम ऋण सुविधा प्रारंभ की जाएगी।
- ❏ 1 सदस्य केवल अधिक से अधिक 5 सदस्यों के लोन फार्म पर गारन्टी कर सकता है या अपनी शेयर मनी का 15 गुणा।
- ❏ असाध्य रोग हो तो स्पष्ट बताना पड़ेगा। छिपाने पर बाद में किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मिलेगी।
- ❏ किसी भी सदस्य की आपने गारंटी दी है तो जब तक उसका लोन चुकता नहीं हो जाता है, तब तक सदस्यता समापन नहीं होगा।
- ❏ नए सदस्यों को दीपावली उपहार लेने के बाद 12 माह तक सदस्यता समापन नहीं होगा, यदि कोई समापन कराना चाहता है तो उपहार राशि कटौती होगी।

### AMOUNT PAYABLE FOR NEW MEMBERSHIP AS UNDER :-

Share Money	500.00
C.D.	300.00
Building Fund	350.00
Kalyan Fund	350.00
Admis. Fees	50.00
Misc.	100.00
Total	1,650.00

Not Refundable

(Signature of Applicant)